

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 2016 (फाल्गुन 12, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-2013 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष) का वार्षिक प्रतिवेदन 2010-2011 एवं (1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष) का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 एवं

(ख) महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन सन् 2011-2012 (1 जुलाई, 2011 से 30 जून, 2012 तक), चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन सन् 2012-2013 (1 जुलाई 2012 से 30 जून, 2013 तक) एवं वार्षिक प्रतिवेदन सन् 2013-2014 (1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2014-2015 (01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के सिदगुवां एवं चनाटोरिया औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्थानीय युवकों को रोजगार न दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य, दतिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 190-वडवानी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री रमेश पटेल को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य, नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के प्रेम नगर मोहल्ले की नाली/पुलिया का सुधार करने एवं घरों के ऊपर से निकले बिजली के तारों को हटाये जाने,
 - (2) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम उकावद में नवीन शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,
 - (3) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम थैली से सिलौरी तक 2 कि.मी. सड़क कार्य कराये जाने,
 - (4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के श्योपुर महाविद्यालय में लॉ कॉलेज प्रारम्भ कराये जाने,
 - (5) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम पचामा में नवीन हैण्डपम्प लगाये जाने,
 - (6) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के बेराढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने,
 - (7) श्री चेताराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम डांगवा के पास नदी पर रपटे का निर्माण कराये जाने,
 - (8) श्री नारायण सिंह पवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम आंदलहेड़ा के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
 - (9) पं. रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (10) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम मोकला से अनंतपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
 - (11) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली में माडॅल आई.टी.आई. खोले जाने,
 - (12) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम लाठगांव झिरी, चमारी कला में खेल मैदान निर्माण कराये जाने,
 - (13) श्री आर.डी.प्रजापति, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम नाद से कीरतपुर कला के लुधियार नदी में पुल निर्माण किये जाने, तथा
 - (14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले की कैना जलाशय की मेड़बंधान और नहर का विस्तारीकरण किये जाने, के
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. वर्ष 2016-2017 के आय-व्यय पर सामान्य चर्चा

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 2016

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा